



Mahendra's

WEEKEND SPECIAL

MATHS

PROFIT & LOSS

LIVE

09 JAN

08:00 AM



SOME IMPORTANT POINTS

(कुछ महत्वपूर्ण बिंदु)

□ COST PRICE(क्रय मूल्य)

□ SELLING PRICE(विक्रय मूल्य)

 PROFIT(लाभ)

 LOSS(हानि)



FORMULA(सूत्र)

➤ PROFIT PERCENT(प्रतिशत लाभ) = $\frac{(S.P.-C.P)}{C.P} \times 100$

➤ LOSS PERCENT(प्रतिशत हानि) =
$$\frac{(C.P.-S.P.)}{C.P.} \times 100$$

- A person bought an article at rs 6400 and sells it at a loss of 12%. Then find the selling price?
- एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 6400 रुपये में खरीदा और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिये?
- A) RS 4632
- B) RS 5632
- C) RS 6832
- D) RS 3832

- A person sells an article at 22% profit .
Find his cost price if his profit is rs 4785.
- एक व्यक्ति एक वस्तु को 22% लाभ पर बेचता है। उसका लागत मल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका लाभ 4785 रुपये है।
- A) Rs 31450
 - B) Rs 56750
 - C) Rs 21750
 - D) Rs 41450

- Two articles P and Q sold at 10% and 15% profit. If the amount of profit received is same then cost price of articles may be
- दो वस्तु P और Q को 10% और 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि प्राप्त लाभ की राशि समान है तो वस्तुओं का लागत मूल्य हो सकता है
- A) 5000 Rs and 2000 Rs
- B) 3000 Rs and 2000 Rs
- C) 5000 Rs and 1000 Rs
- D) 4000 Rs and 2000 Rs

- While selling an article for Rs 18450 a person suffered a loss of 50%. At what price he shuld have sold the article to gain a profit of 50%?
- एक वस्तु को 18450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि हई। 50% का लाभ हासिल करने के लिए उसे किस कीमत पर वस्तु को बेचना चाहिए था?

(SSC C.G.L. 2016)

- A) Rs 13837
- B) Rs 52000
- C) Rs 55350
- D) Rs 56775

